

कर्मचारी चयन आयोग

गो.-1/1 अनुभाग

विषय: - संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर-II परीक्षा, 2017 का संशोधित परिणाम: सूची-I (सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी)

संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर-II परीक्षा, 2017 का परिणाम दिनांक 06.06.2018 को घोषित किया गया जिसमें कुल 3719 अभ्यर्थियों ने सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए अर्हता प्राप्त की।

2. तथापि, रिट याचिका संख्या 4913/2019 (विशाल छिल्लर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य), में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 18.09.2019 के आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2017 की टियर-II परीक्षा के पेपर-IV (सामान्य अध्ययन-वित्त एवं आर्थिक) की कुछेक उत्तर कुंजियों में अब संशोधन किया गया है।

3. टियर-II परीक्षा के पेपर IV की कुछेक उत्तर कुंजियों में संशोधन के कारण, 4015 अभ्यर्थियों ने सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त, इन 4015 अभ्यर्थियों में से, 3675 अभ्यर्थियों को (दिनांक 06.06.2018 को घोषित पूर्व परिणाम के अनुसार) पहले ही सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए अर्हक घोषित कर दिया गया है और इनके अतिरिक्त अब और 340 अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।

4. इसी प्रकार 44 अभ्यर्थी, जिन्हें पहले अर्हक घोषित किया गया था, अब केवल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2017 के टियर-II में अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं।

5. परिणाम में संशोधन के आधार पर, संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर II परीक्षा 2017 की सूची-I के परिणाम में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

(i) 340 अभ्यर्थी, जिन्हें पहले परिणाम में अर्हक नहीं घोषित किया गया था, अब संशोधित परिणाम (सूची -1) में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए अर्हता प्राप्त हो गए हैं।

(ii) 44 अभ्यर्थी, जिन्हें पहले परिणाम में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए अर्हक घोषित किया गया था, अब संशोधित परिणाम (सूची -2) के अनुसार अर्हता प्राप्त नहीं हैं।

(iii) एक अभ्यर्थी, जिसका रोल नंबर 2405054771 (श्री सचिन कुमार) है, जिसे पहले टियर-III में बैठने के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर-II परीक्षा 2017 में अर्हक नहीं घोषित किया गया था, अब संशोधित परिणाम के अनुसार संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर-III परीक्षा 2017 में बैठने हेतु अर्हता प्राप्त है। इस अभ्यर्थी के संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं को नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा।

6. इस परीक्षा का संशोधित परिणाम कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट <http://ssc.nic.in> पर उपलब्ध है। अन्य विवरण और ब्योरे दिनांक 06.06.2018 के परिणाम के अनुसार ही रहेंगे।

अवर सचिव (गो.-1/1)

15.11.2019